



ऑनलाइन पाठ्यक्रम
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग
(23 मई - 28 मई, 2022)
लक्षित प्रतिभागी- स्कूल शिक्षक

दिनांक: 17 मई, 2022

पाठ्यक्रम दिशानिर्देश

प्रिय शिक्षक,

भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इसरो देहरादून द्वारा संचालित "अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग" पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। कृपया ऑनलाइन पाठ्यक्रम पर आगे बढ़ने से पहले निम्नलिखित दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें:

पाठ्यक्रम में भाग लेने की प्रक्रिया:

- कृपया नीचे दिये गए यूआरएल के माध्यम से पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण करें-
<https://elearning.iirs.gov.in/edusatregistration/student>
- उपरोक्त वेबसाइट में सफलतापूर्वक पंजीकरण और आपका अकाउंट सक्रिय होने पर, आपको अपना पंजीकरण नंबर ईमेल के माध्यम से प्राप्त होगा। आपका आवेदन एक चयन प्रक्रिया से गुजरेगा, और सभी चयनित शिक्षकों को ईमेल के माध्यम से आईआईआरएस ई-क्लास पोर्टल (<https://eclass.iirs.gov.in>) के लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त होंगे।
- इस पाठ्यक्रम का आयोजन अंग्रेजी माध्यम में किया जाएगा। आप अपने प्रश्नों को हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने हेतु कृपया ई-क्लास पोर्टल में उपलब्ध चैट बॉक्स का प्रयोग करें।
- प्रतिदिन दो लाइव सत्र अर्थात् 1100 से 1200 बजे और 1600 बजे से 1700 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। लाइव सत्र आईआईआरएस ई-क्लास पोर्टल में उपलब्ध होंगे और सभी प्रतिभागी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके ई-क्लास पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद इन सत्रों में शामिल हो सकते हैं।
- प्रतिभागी के लॉगिन समय के आधार पर, दैनिक उपस्थिति सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से चिह्नित की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि लाइव सत्र के दौरान वेब पेज पर बने रहें और किसी अन्य हाइपरलिंक पर क्लिक न करें।
- लाइव सेशन पूरा होने के बाद अगले कुछ घंटों के लिए लाइव प्रश्नोत्तरी भी उपलब्ध रहेगी। आपको इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु इन प्रश्नोत्तरी में भाग लेना होगा।
- यदि आपको किसी तकनीकी कठिनाई या सर्वर पर भारी लोड के कारण लाइव सत्र के दौरान ई-क्लास पोर्टल में लॉग इन करने में समस्या आती है तो आपको आईआईआरएस (एडुसैट यूट्यूब चैनल) के माध्यम से सत्र देखने की सलाह दी जाती है। हालांकि ई-क्लास पोर्टल में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए आपको अगले दिन फिर से ऑफलाइन सत्र देखना होगा या ई-क्लास पोर्टल में उपलब्ध लाइव प्रश्नोत्तरी में भाग लेना होगा।
- पाठ्यक्रम अनुसूची आईआईआरएस वेबसाइट और ई-क्लास पोर्टल में प्रकाशित की जाएगी। किसी भी बदलाव के लिए कृपया पाठ्यक्रम अनुसूची और ई-क्लास पोर्टल में उपलब्ध अधिसूचनाओं का पालन करें।

- आप अपने भविष्य के संदर्भों के लिए ई-क्लास पोर्टल से अध्ययन सामग्री का पीडीएफ संस्करण भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- ई-क्लास पोर्टल में आपके अकाउंट में सभी तकनीकी सत्र और शिक्षण संसाधन 10 जून, 2022 तक उपलब्ध रहेंगे। आपको अपना कोर्स 10 जून, 2022 से पहले पूरा करना होगा।
- आपको अपना पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद कोर्स फीडबैक प्रस्तुत करना होगा। कोर्स फीडबैक के लिए लिंक 28 मई, 2022 के बाद से ई-क्लास पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
- यदि आपसे ई-क्लास पोर्टल के लिए अपना लॉगिन क्रेडेंशियल खो गया है या आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप पाठ्यक्रम के दौरान किसी भी समय निम्न यूआरएल पर जाकर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल पुनर्प्राप्त कर सकते हैं- <https://eclass-intl-lms.iirs.gov.in/login/index.php>.

प्रमाणपत्र पुरस्करण

तकनीकी सत्रों में आपकी उपस्थिति और ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी मूल्यांकन में आपके अंको के आधार पर आईआईआरएस इसरो द्वारा पाठ्यक्रम भागीदारी प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। पाठ्यक्रम भागीदारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तकनीकी सत्रों में न्यूनतम 60% उपस्थिति आवश्यक होगी।